



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन 1941 (श0)
(सं० पटना 1105) पटना, शुक्रवार, 27 सितम्बर 2019

सं० 04/क्षे०स्था० (जनगणना)-05/2019-248(4)/रा०,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

28 जून 2019

विषय :- जनगणना, 2021 के सुगम एवं सफल कार्यान्वयन के निमित्त राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन।

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनगणना, 2021 के सुगम एवं सफल संचालन हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित करने का सुझाव दिया गया है। अतएव राज्य सरकार जनगणना, 2021 के सफल संचालन के लिए मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में समन्वय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस समिति के निम्नांकित सदस्य होंगे :-

- | | |
|--|-----------|
| 1. मुख्य सचिव, बिहार | — अध्यक्ष |
| 2. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना | — सदस्य |
| 3. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना | — सदस्य |
| 4. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना | — सदस्य |
| 5. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना | — सदस्य |
| 6. प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना | — सदस्य |
| 7. प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना | — सदस्य |
| 8. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना | — सदस्य |
| 9. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना | — सदस्य |
| 10. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना | — सदस्य |

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 11. | सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना | — सदस्य |
| 12. | निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना | — सदस्य |
| 13. | निदेशक, जनगणना संचालन, बिहार, गृह मंत्रालय भारत सरकार, | —संयोजक सदस्य |

2. यह समिति जनगणना, 2021 के कार्यों में समुचित मार्गदर्शन, संबंधित विभागों में समन्वय एवं जनगणना, 2021 के कार्य प्रगति का अनुश्रवण करेंगी।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष तथा सभी सदस्यों को प्रेषित की जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
प्रत्यय अमृत,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1105-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>